



24 जुलाई 2023

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





## प्रमुख खबरें

- इंटरनेशनल एल्युमीनियम इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार 2023 की पहली छमाही में वैश्विक स्तर पर प्राथमिक एल्युमीनियम का उत्पादन साल-दर-साल 1.8% बढ़कर 34.212 मिलियन मीट्रिक टन हो गया, जिसका मुख्य कारण चीन में उच्च उत्पादन है।
- कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्तमान मानसून सीजन में खरीफ की बुआई 14 जुलाई तक 1.6 प्रतिशत कम होकर 598.43 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो एक साल पहले 607.98 लाख हेक्टेयर थी।
- उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार मांग बढ़ने से जून में भारत का खाद्य तेलों का आयात पिछले साल के समान महीने की तुलना में 39.31 प्रतिशत बढ़कर 13.11 लाख टन हो गया। जून 2022 में खाद्य तेल का आयात 9.41 लाख टन हुआ।
- रूसी केंद्रीय बैंक ने कहा कि जुलाई की शुरुआत में रूस का सोने का भंडार 74.9 मिलियन ट्रॉय औंस था।
- केंद्र ने कच्चे तेल पर विंडफॉल कर को शून्य से बढ़ाकर 1,600 रुपये प्रति टन कर दिया, जो 15 जुलाई से प्रभावी होगा।
- इस्पात मंत्रालय के अनुसार, जून 2023 में भारत का इस्पात आयात 4.84 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जो महीने-दर-महीने आधार पर 5.9% की वृद्धि और जून 2022 की तुलना में 7.6% की वृद्धि है।
- सरकार द्वारा जारी निर्यात और आयात आंकड़ों के आधार पर, जून में भारत का व्यापारिक व्यापार घाटा 20.13 बिलियन डॉलर की उम्मीद के अनुरूप है। जून में व्यापारिक निर्यात 32.97 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 53.10 अरब डॉलर रहा।
- रूस ने घोषणा की कि वह यूक्रेन के साथ उस समझौते में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया है जिसके तहत पड़ोसी देश पर रूस के चल रहे आक्रमण के बीच दोनों देशों को अनाज निर्यात जारी रखने को लेकर समझौता हुआ है।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	14.07.23	20.07.23	बदलाव (%)
हल्दी	11842.00	13152.00	11.06%
धनिया	6810.00	7434.00	9.16%
जीरा	57100.00	61055.00	6.93%
सीसेमसीड	17020.00	17830.00	4.76%
मक्का	1983.00	2065.00	4.14%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	14.07.23	20.07.23	बदलाव (%)
बाजरा	2096.00	2058.00	-1.81%
जौ	1875.00	1869.50	-0.29%
धान	4105.00	4100.00	-0.12%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	14.07.23	20.07.23	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	207.30	224.60	8.35%
सोना एम	59562.00	59779.00	0.36%
सोना गिनी	48017.00	48168.00	0.31%
सोना	59718.00	59897.00	0.30%
कच्चा तेल	6212.00	6222.00	0.16%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	14.07.23	20.07.23	बदलाव (%)
एल्युमीनियम	202.95	197.65	-2.61%
तांबा	740.95	730.05	-1.47%
निकल	1778.80	1766.70	-0.68%
मेंथा ऑयल	894.40	890.20	-0.47%
लेड	184.20	183.85	-0.19%

## साप्ताहिक समीक्षा

पिछले सप्ताह में, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के बीच नए सिरे से खरीदारी के कारण सीआरबी इंडेक्स में छोटी लेकिन लगातार खरीदारी देखी गई। यह 306 के ऊपर बंद हुआ। कॉमेक्स पर सोने की कीमतों के 1980 डॉलर के रेजिस्टेंस स्तर को पार करने के बाद से सराफा काउंटर को मजबूती मिली, लेकिन यह 1972 डॉलर के करीब बंद हुआ। चांदी की कीमतें 25.5 डॉलर के स्तर के करीब कारोबार कर रही हैं। एमसीएक्स पर सोने की कीमतें 60000 के स्तर तक पहुंचने के करीब थी जबकि चांदी की कीमतें 76600 के करीब बंद हुईं। सोने की कीमतें बढ़कर दो महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं, क्योंकि यूके के कमजोर मुद्रास्फीति आंकड़ों ने अधिक दांव लगाया कि वैश्विक ब्याज दरें चरम पर थीं, जबकि डॉलर में कुछ कमजोरी से भी मदद मिली। ऊर्जा काउंटर में मामूली बढ़त देखी गई और ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 80 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में उम्मीद से कम गिरावट के कारण गुरुवार को तेल की कीमतों में तेजी आई, जबकि कमजोर मांग की संभावना के कारण निवेशक सतर्क रहे। चीन के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, रूस से चीन का कच्चे तेल का आयात जून में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के मुकाबले छूट कम हो गई। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा दर में कटौती के बावजूद, मंदी की खबरों के कारण औद्योगिक धातुओं की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से पीछे हट गईं। लेकिन बाद में उन्होंने अपने कुछ साप्ताहिक नुकसान को भरपाई करने की कोशिश की। चीन में कमजोरी के कारण स्टील की कीमतों में कुछ हफ्तों तक गिरावट जारी रही। धातु बाजार काफी हद तक आगामी फेड बैठक पर केंद्रित थे, जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की व्यापक उम्मीद थी। जबकि दुनिया के नंबर 1 तांबा आयातक चीन की कमजोर आर्थिक आंकड़ों के कारण इस सप्ताह तांबे की कीमतों में भारी गिरावट हुई। बाजार अब विकास को बढ़ावा देने के लिए देश में अधिक प्रोत्साहन उपायों का इंतजार कर रहे हैं।

कृषि कमोडिटीज में, गुजरात और अन्य उत्पादक राज्यों में भारी बारिश के कारण फसल खराब होने की बढ़ती आशंका के कारण अरंडी की कीमतों में लगातार चौथे सप्ताह तेजी जारी रही और कीमतें 6400 के स्तर के करीब बंद हुईं। 13 जुलाई तक गुजरात में लगभग 73.5 हजार हेक्टेयर में अरंडी की बुआई हुई थी, जबकि पिछले साल 13.7 हजार हेक्टेयर में बुआई हुई थी। कमजोर भौतिक मांग के कारण कॉटनऑयलसीडकेके की कीमत 2400 के स्तर को पार कर गई। ग्वार की कीमतों ने भविष्य के संभावित बढ़ोतरी के लिए एक सपोर्ट स्थापित करने का प्रयास किया। मसालों के लिए यह एक सकारात्मक सप्ताह था, हल्दी और धनिया की कीमतों में उल्लेखनीय तेजी देखी गई। फसल खराब होने और हल्दी की बुआई के रकबे में गिरावट की रिपोर्ट के कारण कीमतें बढ़ीं। मानसून की चिंताओं के कारण बुआई के मौसम में देरी हुई है। वर्ष 2023 में हल्दी का क्षेत्रफल 15-20% कम होने का अनुमान है। राजस्थान और अन्य उत्पादक राज्यों में मौसम की चिंताओं के कारण धनिया की कीमतें बढ़ीं, जिससे आवक की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निर्यात मांग बढ़ने से भी धनिया की कीमतों में मजबूती आई। भारत ने अप्रैल-मई-23 की समयावधि के दौरान पिछले वर्ष के 6.23 हजार टन के मुकाबले लगभग 35.4 हजार टन का निर्यात किया। पिछले वर्ष में यूक्रेन के अनाज के सुरक्षित काले सागर निर्यात की अनुमति देने वाला सौदा सोमवार को समाप्त हो गया जब रूस सौदे से अलग हो गया और चेतावनी दी कि वह संयुक्त राष्ट्र के कदमों के कारण जहाजों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	14.07.2023	20.07.2023	बदलाव( % )
जौ	जयपुर	1,888.15	1,873.30	-0.79%
चना	दिल्ली	5,222.60	5,249.10	0.51%
धनिया	कोटा	6,939.45	7,370.25	6.21%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	826.10	835.55	1.14%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,442.95	1,448.70	0.40%
ग्वारसीड	जोधपुर	5,550.00	5,662.20	2.02%
ग्वारगम	जोधपुर	11,309.30	11,475.20	1.47%
जीरा	ऊझा	58,854.70	60,421.00	2.66%
सरसों	जयपुर	5,606.25	5,648.50	0.75%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	945.00	960.00	1.59%
सोयाबीन	इंदौर	5,034.70	5,074.00	0.78%
हल्दी	निजामाबाद	10,499.45	11,882.80	13.18%
गेहूं	दिल्ली	2,428.65	2,445.85	0.71%
कॉटन	कड़ी	26,680.40	27,088.75	1.53%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2,600.50	2,504.00	-3.71%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	14.07.2023	20.07.2023	बदलाव( % )
एल्युमीनियम	LME	नकद	2276.50	2201.00	-3.32%
तांबा	LME	नकद	8673.50	8485.50	-2.17%
लेड	LME	नकद	2122.50	2107.00	-0.73%
निकल	LME	नकद	21630.00	21280.00	-1.62%
जिंक	LME	नकद	2439.00	2383.50	-2.28%
सोना	COMEX	अगस्त	1964.40	1970.90	0.33%
चांदी	COMEX	सितम्बर	25.19	25.02	-0.67%
लाइट क्रूड	NYMEX	सितम्बर	75.42	75.63	0.28%
नेचुरल गैस	NYMEX	अगस्त	2.54	2.76	8.59%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	14.07.2023	20.07.2023	बदलाव( % )
सोयाबीन	CBOT	अगस्त	14.95	14.95	0.00%
सोया तेल	CBOT	अगस्त	67.89	67.64	-0.37%
कॉटन	ICE	दिसम्बर	82.66	85.93	3.96%
सीपीओ	BMD	सितम्बर	3,881.00	4,046.00	4.25%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	13.07.2023 क्वांटिटी	20.07.2023 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	0	0	0
मक्का	मी.टन	0	0	0
कैस्टर सीड	मी.टन	5607	8407	2800
चना	मी.टन	11510	12154	644
धनिया	मी.टन	18475	17963	-512
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	15616	16016	400
ग्वारगम	मी.टन	18926	19062	136
ग्वारसीड	मी.टन	180	150	-30
जीरा	मी.टन	6368	5783	-585
मक्का	मी.टन	0	0	0
स्टील लॉग	मी.टन	632	632	0
हल्दी	मी.टन	1083	1163	80

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	14.07.2023 क्वांटिटी	20.07.2023 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	472	472	0
तांबा	मी.टन	993963	852445	-141518
सोना	किग्रा	358	359	1
सोना मिनी	किग्रा	2824	2824	0
सोना गिनी	किग्रा	358300	373500	15200
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	77081	86894	9813
चांदी एम	किग्रा	40502	40502	0
जिंक	मी.टन	0	0	0

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 14.07.2023	स्टॉक की स्थिति 20.07.2023	अंतर
एल्युमीनियम	520800	513100	-7700.00
तांबा	59175	58800	-375.00
निकल	37308	37518	210.00
लेड	48425	50400	1975.00
जिंक	69725	90750	21025.00



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	अगस्त	60910.00	14.03.23	तेजी	32000.00	61200.00	-	61000.00
NCDEX	हल्दी	अगस्त	13152.00	06.04.23	तेजी	7035.00	13100.00	-	13000.00
NCDEX	ग्वारसीड	अगस्त	5812.00	28.06.23	तेजी	5350.00	5550.00	-	5500.00
NCDEX	कैस्टरसीड	अगस्त	6395.00	15.06.23	तेजी	5750.00	6070.00	-	6050.00
NCDEX	स्टील लांग	अगस्त	44500.00	30.01.23	मंदी	50000.00	-	45400.00	45500.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	अगस्त	2408.00	11.04.23	मंदी	2800.00	-	2670.00	2700.00
MCX	मेंथा ऑयल	अगस्त	872.60	14.03.23	मंदी	1015.00	-	897.00	900.00
MCX	बुलडेक्स	अगस्त	16205.00	12.07.23	तेजी	15900.00	15800.00	-	15750.00
MCX	चांदी	सितम्बर	75449.00	12.07.23	तेजी	72000.00	73300.00	-	73200.00
MCX	सोना	अगस्त	59552.00	12.07.23	तेजी	59000.00	58200.00	-	58000.00
MCX	तांबा	अगस्त	730.05	13.07.23	तेजी	730.00	717.00	-	715.00
MCX	लेड	अगस्त	183.85	13.07.23	साइडवेज	182.00	178.00	187.00	-
MCX	जिंक	अगस्त	214.25	13.07.23	तेजी	215.00	203.00	-	200.00
MCX	एल्युमिनियम	अगस्त	197.65	12.07.23	साइडवेज	199.00	191.00	190.00	-
MCX	कच्चा तेल	अगस्त	6211.00	12.07.23	तेजी	6050.00	6000.00	-	5950.00
MCX	नेचुरल गैस	अगस्त	224.60	12.07.23	मंदी	220.00	-	241.00	242.00

\*20/07/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पंजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना को ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### लेड (अगस्त) एमसीएक्स



### लेड (अगस्त) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 185.35

निचला स्तर: 180.95

एमसीएक्स में लेड (अगस्त) कॉन्ट्रैक्ट 20 जुलाई 2023 को 183.85 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 184.48 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 51.918 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

179.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 186.00 ₹ के टारगेट के लिए 181.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### कैस्टरसीड (अगस्त) एनसीडीईएक्स



### कैस्टरसीड (अगस्त) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 6436.00

निचला स्तर: 5539.00

एनसीडीईएक्स में कैस्टरसीड (अगस्त) कॉन्ट्रैक्ट 20 जुलाई 2023 को 6395.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 5919.46 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 83.182 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

6070.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 6500.00 ₹ के टारगेट के लिए 6200.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### नेचुरल गैस (अगस्त) एमसीएक्स



### नेचुरल गैस (अगस्त) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 241.50

निचला स्तर: 190.10

एमसीएक्स में नेचुरल गैस (अगस्त) कॉन्ट्रैक्ट 20 जुलाई 2023 को 224.60 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 213.06 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 62.212 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

200.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 250.00 ₹ के टारगेट के लिए 215.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

महाराष्ट्र और हाल के दिनों में अधिक बारिश के कारण फसल खराब होने की बढ़ती चिंताओं के कारण पिछले सप्ताह हल्दी की कीमतों में तेजी देखी गई। जून में मानसून की धीमी प्रगति के कारण बुआई के मौसम में पहले ही देरी हो चुकी है और अब भारी वर्षा के कारण प्रमुख उत्पादक राज्यों में फसल की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्टॉकस्ट बहुत सक्रिय हैं और आगामी आपूर्ति परिदृश्य को देखते हुए आक्रामक खरीदारी कर रहे हैं। बुआई के समय मानसून की चिंताओं के कारण वर्ष 2023 में हल्दी का क्षेत्रफल 15-20% कम होने का अनुमान है, जो मिल मालिकों और स्टॉकस्टों को आक्रामक खरीदारी के लिए प्रेरित कर रहा है। पिछले 2 सप्ताह में हाजिर कीमतें 15% से अधिक बढ़ी हैं और निजामाबाद बाजार में कीमतें 10900 पर पहुंच गई हैं। हाल के महीनों में हल्दी की निर्यात मांग में भी सुधार हुआ है जिससे बाजार के सेंटीमेंट को भी समर्थन मिलेगा। भारत ने अप्रैल-मई-23 की समय अवधि के दौरान पिछले वर्ष के 30.9 हजार टन की तुलना में लगभग 39.42 हजार टन हल्दी का निर्यात किया, जो साल-दर-साल 28% अधिक है। हल्दी वायदा (अगस्त) की कीमतों के 10000-14000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आवक कम होने से जीरा वायदा में तेजी का कारोबार हुआ। गुजरात और राजस्थान में भारी वर्षा से आवक की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जीरा की सूखी पाइपलाइन से भी कीमतों को समर्थन मिला। अधिकांश मिलें आवश्यकता आधारित खरीदारी कर रही हैं और कीमतों में किसी भी गिरावट पर खरीद को प्राथमिकता दे रही हैं। लेकिन जीरे में बढत सीमित होने की संभावना है क्योंकि अगस्त से तुर्की में ताजा आवक शुरू होने के साथ वैश्विक स्तर पर आपूर्ति परिदृश्य में सुधार के कारण हाल के हफ्तों में निर्यात मांग धीमी रही है। अप्रैल-मई के लगातार 2 महीनों में निर्यात पिछले वर्ष के 23 हजार टन की तुलना में बढ़कर 47 हजार टन हो गया, लेकिन अब आने वाले महीनों में निर्यात कम होने की संभावना है। त्योहारी और शादी के सीजन की मांग में कमी से भी इस काउंटर में अत्यधिक बढत पर रोक लगेगी। जीरा वायदा (अगस्त) की कीमतों के 55000 - 63000 के दायरे में रहने की संभावना है।

मुख्य रूप से बाजार में आवक की गति धीमी होने के कारण धनिया वायदा की कीमतों में तेजी की संभावना है। भारत के मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण आवक की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, निर्यात पृष्ठताछ बढ़ने से कीमतों को तेजी के रूझान के साथ कारोबार करने में भी मदद मिलेगी। भारत ने अप्रैल-मई-23 की समयवधि के दौरान पिछले वर्ष के 6.23 हजार टन के मुकाबले लगभग 35.4 हजार टन का निर्यात किया। धनिया (अगस्त) की कीमतों के 6900-8000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

### अन्य कमोडिटीज

वर्ष 2023 में कपास के तहत बुआई क्षेत्र में गिरावट की रिपोर्ट के कारण कपास की कीमतों के तेजी के रूझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। चालू वर्ष और पिछले वर्ष के बीच बुआई क्षेत्र का अंतर पिछले सप्ताह के 5% की तुलना में 14 जुलाई के अंत तक 11% तक बढ़ गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, लेकिन मानसून की चिंताओं के कारण महाराष्ट्र और तेलंगाना में बुआई में देरी हुई है। भारत के मध्य भाग में भारी बारिश के कारण फसल खराब होने की बढ़ती आशंका से भी निकट भविष्य में कीमतें बढ़ सकती हैं। एमसीएक्स पर कॉटन (जुलाई) की कीमतें 54000-58000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। इसी तरह, कपास (अप्रैल-24) वायदा की कीमतों में 1500-1560 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

बाजार में आवक की गति धीमी होने के कारण कॉटनसीडऑयलकेक (अगस्त) वायदा की कीमतों में तेजी की संभावना है। रकबा कम होने की रिपोर्ट से कीमतों में मजबूती आएगी। अन्य ऑयलमिल की बढ़ती कीमतों से कॉटनसीडऑयलकेक के लिए बाजार में सेंटीमेंट बेहतर रहने की संभावना है। कॉटनसीडऑयलकेक की कीमतों के 2350-2650 के दायरे में रहने की संभावना है।

मौजूदा समय में मौसम की अनिश्चितता के कारण ग्वारसीड (अगस्त) वायदा की कीमतों में तेजी के रूझान के साथ कारोबार होने की संभावना है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश के कारण फसल खराब होने का डर है। 18 जुलाई तक राजस्थान में ग्वार की बुआई लगभग 19.85 लाख हेक्टेयर में की गई, जबकि पिछले साल 16.79 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इसी प्रकार, गुजरात में ग्वार के तहत बुआई क्षेत्र लगभग चार गुना बढ़कर 17 जुलाई को 57.5 हजार हेक्टेयर हो गया, जो पिछले वर्ष का 11.1 हजार हेक्टेयर था। अप्रैल-23-मई-23 के दौरान ग्वारगम निर्यात पिछले वर्ष के 42.1 हजार टन की तुलना में 43% कम होकर 24 हजार टन हो गया। निकट भविष्य में ग्वारसीड की कीमतें 5800-6250 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं जबकि ग्वारगम की कीमतों के 11300-13000 के दायरे में रहने की संभावना है।

नई फसल की आपूर्ति बढ़ने से मेंथा ऑयल वायदा (जुलाई) की कीमतों में गिरावट की संभावना है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कटाई गतिविधियों में तेजी आने से आपूर्ति बढ़ गई है। अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण उपज बढ़ने से उत्पादन की संभावनाओं में सुधार हुआ है। इसके अलावा, मेन्थॉल के कमजोर निर्यात की रिपोर्ट से कीमतों पर दबाव पड़ेगा। मेंथा ऑयल की कीमतों के 860-920 के दायरे में रहने की संभावना है।

गुजरात में अरंडी के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की रिपोर्ट के कारण अरंडी की कीमतों में गिरावट की संभावना है। बुआई गतिविधियां बेहतर गति से चल रही हैं क्योंकि 17 जुलाई तक गुजरात में लगभग 56 हजार हेक्टेयर में अरंडी की बुआई हुई थी, जो पिछले वर्ष के 13.5 हजार हेक्टेयर की तुलना में लगभग 330% अधिक है। इसके अलावा, अरंडी तेल की कमजोर मांग से भी निकट अवधि में कीमतों पर दबाव रह सकता है। भारत ने अप्रैल-23-मई-23 के दौरान लगभग 120 हजार टन अरंडी के तेल का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष के 143 हजार टन के मुकाबले 16% कम है। चीन अरंडी के तेल का प्रमुख आयातक रहा है, लेकिन उपरोक्त अवधि के दौरान इसकी खरीदारी साल-दर-साल 7% घटकर 63 हजार टन रह गई। लेकिन गुजरात में मौजूदा मौसम की अनिश्चितता से गिरावट सीमित रह सकती है। अरंडी (अगस्त) वायदा की कीमतों के 6000-6550 के दायरे में रहने की संभावना है।

### सर्सीफा

जुलाई की बैठक के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकने की उम्मीद से सोने की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह लगातार वृद्धि देखी गई है। बाजार को आगामी बैठक में दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की उम्मीद है, जो मौजूदा सख्ती की प्रक्रिया के अंत का संकेत होगा और इसने सोने की कीमतों में बढ़ोतरी में योगदान दिया है। अमेरिकी डॉलर सूचकांक 15 महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है जबकि अधिकारियों द्वारा सीमा पार वित्तपोषण नियमों को समायोजित करने और राज्य के स्वामित्व वाले प्रमुख बैंकों को डॉलर बेचेते हुए देखे जाने के बाद चीन के युआन में मजबूती दर्ज की गई। केंद्रीय बैंक के मजबूत मार्गदर्शन के कारण चीन का युआन मजबूत हुआ, लेकिन इसकी बढत सीमित रही क्योंकि निवेशक संभावित प्रोत्साहन उपायों पर अधिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। एशिया में, जापान की मुख्य उपभोक्ता मुद्रास्फीति जून में फिर से तेज हो गई और लगातार 15वें महीने केंद्रीय बैंक के 2% लक्ष्य से ऊपर रही, जिससे संभावना बढ़ गई है कि बैंक ऑफ जापान 27-28 जुलाई की नीतिगत बैठक में इस साल की मुद्रास्फीति को संशोधित करेगा। केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई की शुरुआत में रूस में सोने का भंडार 74.9 मिलियन टॉय आंस तक पहुंच गया। ये घटनाक्रम केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयों और अपेक्षाओं के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया को उजागर करते हैं, जो सोने की कीमतों और मुद्रा की चाल दोनों को प्रभावित करते हैं। तकनीकी मोर्चे पर, कॉम्पेक्स पर सोने की कीमतों को 1990 डॉलर के करीब रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, और इस स्तर से ऊपर जाने पर कीमतों में 2060 डॉलर तक बढ़त हो सकती है। सोने की तुलना में चांदी की कीमतें तेजी के रूझान के साथ कारोबार कर रही हैं और कीमतें 24.600 डॉलर के सपोर्ट स्तर से थोड़ा ऊपर हैं। इस सप्ताह में, एमसीएक्स पर सोने में खरीददारी जारी रह सकती है, और कीमतों को 58000 के करीब समर्थन मिलेगा और 62000 के आसपास रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इस बीच, समर्थन स्तर के पास खरीदारी की रणनीति के साथ, चांदी की कीमतों के 72000-77000 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

पिछले सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई, क्योंकि कारोबारियों को उम्मीद है कि आगामी बैठक के दौरान अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर रोक लग जाएगी। व्यापक आशंका है कि फेडरल रिजर्व की दो दिवसीय बैठक में ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इस अपेक्षित बढ़ोतरी के बाद, बाजार का अनुमान है कि फेडरल रिजर्व 2023 की शेष अवधि के लिए ब्याज दरों को 5.5% पर अपरिवर्तित रखेगा। दर वृद्धि रुकने की बाजार की उम्मीद आंशिक रूप से उम्मीद से कमजोर अमेरिकी मुद्रास्फीति आंकड़ों से प्रभावित है, जिसने जुलाई में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी में योगदान दिया। दरों में बढ़ोतरी पर संभावित रोक से बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अधिक तेजी आ सकती है। इसके अतिरिक्त, चीन की सरकार द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन उपायों की संभावना से कच्चे तेल की कीमत को समर्थन मिला है। चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के एक अधिकारी ने हाल ही में चीनी बाजार में खपत को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए नीतियों के कार्यान्वयन का उल्लेख किया, जिससे कच्चे तेल की कीमतों को और समर्थन मिलेगा। कुल मिलाकर, पूरे सप्ताह कच्चे तेल की कीमतें बाजार की अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर रोक की उम्मीद और चीन में आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए संभावित प्रोत्साहन उपायों से प्रभावित हुई है। इस सप्ताह में कीमतों में दोनों तरफ उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है और कीमतें 6000-6450 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। भीषण गर्मी और खपत में अनुमानित वृद्धि के कारण मजबूत मांग के कारण नेचुरल गैस की कीमतों में उछाल आया है। इस सप्ताह में कीमतें तेज बनी रह सकती हैं, जहां इसे 215 के करीब समर्थन मिल सकता है और 240 के करीब रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। दोनों काउंटरों में सपोर्ट के पास खरीदारी की सलाह है।



## बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें एक दायरे में कारोबार कर सकती हैं क्योंकि बाजार को उम्मीद है कि शीर्ष उपभोक्ता चीन में अधिकारियों द्वारा कुछ आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उपाय जारी किए जाने के बाद मांग में सुधार होगा, जबकि कीमत में बढ़त सीमित हो सकती है क्योंकि चीनी आर्थिक विकास अभी भी उम्मीद से कम है। बीजिंग के अधिकारियों ने चीन की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए एक व्यापक अभियान के हिस्से के रूप में, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देने के उपायों का खुलासा किया, जो धातु की खपत का एक बड़ा हिस्सा हैं। लेकिन अभी तक इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि सरकार बुनियादी ढाँचे और आवास सहायता जैसे प्रोत्साहन उपायों की पेशकश करेगी जिससे धातुओं की मांग में बढ़ोतरी होगी। तांबे की कीमतें 722-745 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। चीन में तांबे की कमजोर खपत बाजार में कमजोर हाजिर खरीदारी और भंडार में वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुई। सीआईटीआईसी प्यूचर्स के अनुसार, दूसरी तिमाही में अच्छा लाभ दर्ज करने के बाद, इस वर्ष की दूसरी छमाही में बिजली क्षेत्र की मांग धीमी होने की उम्मीद है। जिंक की कीमतें 208-225 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। लोड की कीमतें 180-189 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें 190-208 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इंटरनेशनल एल्युमीनियम इंस्टीट्यूट के आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 की पहली छमाही में वैश्विक स्तर पर प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन साल-दर-साल 1.8% बढ़कर 34.212 मिलियन मीट्रिक टन हो गया, जिसका मुख्य कारण चीन में उच्च उत्पादन था। आईएआई ने कहा कि जून में वैश्विक उत्पादन 0.85% बढ़कर 5.699 मिलियन मीट्रिक टन हो गया, जिसमें से चीन ने 3.377 मिलियन मीट्रिक टन का योगदान किया। स्टील लॉन्ग वायदा (अगस्त) की कीमतें नरमी के रूझान के साथ 43500-45500 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। चीन की धीमी आर्थिक वृद्धि और चल रहे संपत्ति संकट ने स्टील की कीमतों और मांग को प्रभावित किया है।

## हल्दी...बढ़ती चमक

हल्दी प्राचीन काल से ही भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला है। भारत विश्व के कुल हल्दी उत्पादन का लगभग 90 फीसदी से अधिक उत्पादित करता है और लगभग 80 फीसदी का उपभोग कर जाता है।

हाल ही में, हल्दी की कीमतें लगभग 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, जो इस साल कम उत्पादन क्षेत्र, किसानों के लिए दोबारा बुआई के लिए कुछ क्षेत्रों में बीजों की कमी और निर्यात बाजार, मसाला और पाउडर मसाला कंपनियों की लगातार मांग के कारण हुई है। आक् में गिरावट के साथ-साथ बुआई में देरी और प्रतिकूल मौसम के कारण भी हल्दी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है।


## कम रकबा और कम उत्पादन का अनुमान

भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में हल्दी का उत्पादन 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जो 2021-2022 में 12,21,717 टन से 4 प्रतिशत कम है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमान के अनुसार, महाराष्ट्र में हल्दी के बुआई क्षेत्र में 10-20 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। इसी तरह तमिलनाडु में बुआई 10-15 फीसदी घटने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले वर्ष (2021-2022) की तुलना में 18-22 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हल्दी उत्पादक क्षेत्रों में बुआई गतिविधियाँ पिछले सीजन की तुलना में पिछले कुछ हफ्तों में धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में वर्षा की भारी कमी है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बेमौसम बारिश के कारण हल्दी की फसल को नुकसान हुआ है, जिससे आपूर्ति बाधित हुई है।

## अधिक निर्यात

वित्त वर्ष 2022-23 में हल्दी का निर्यात, जो अपने औषधीय गुणों के कारण कोविड महामारी के बाद बढ़ा है, साल दर साल 11 प्रतिशत बढ़कर 1,70,085 टन हो गया। अप्रैल-मई 2023 के दौरान हल्दी का निर्यात 27.55 प्रतिशत बढ़कर 39,418.73 टन हो गया, जबकि अप्रैल-मई 2022 के दौरान निर्यात 30,903.38 टन हुआ था। मई 2023 में लगभग 19,827.86 टन हल्दी का निर्यात किया गया, जबकि अप्रैल 2023 में 19,590.87 टन का निर्यात किया गया था, जो 1.21% की वृद्धि दर्शाता है और मई 2022 में 17,138.35 टन का निर्यात किया गया, जो 15.69% की वृद्धि है। भविष्य में अनुपलब्धता की आशंका के कारण निर्यातकों ने बेहतर गुणवत्ता वाली हल्दी खरीदना शुरू कर दिया है। मलेशिया, बांग्लादेश, अमेरिका और अन्य देशों से अच्छी निर्यात मांग है।

मानसून की बारिश में अपेक्षित कमजोरी और रकबे में अनुमानित कमी, जिससे हल्दी के उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना है, के कारण हल्दी की कीमतों में कुल मिलाकर तेजी का रूझान बना हुआ है। इसके अलावा मार्च में बेमौसम बारिश ने फसल की गुणवत्ता को प्रभावित किया है और इसके परिणामस्वरूप, पिछले कुछ महीनों से गुणवत्ता वाली हल्दी की मांग बढ़ रही है, जिससे कीमतें बढ़ गई हैं।



स्रोत: भारतीय मसाला बोर्ड



स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



#### Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

#### Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, AWing 401 / 402 , 4th Floor ,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

#### Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटेड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटेड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटेड लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटेड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एगेंसिटी द्वारा सिन्डिकेटेड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**दिसक्लेमर:** यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।